



घर पर सुरक्षित रूप से अलग रहने के लिए संसाधन कैसे प्राप्त करें

NYC Test & Trace Corps यह सुनिश्चित करेगा कि COVID-19 से ग्रस्त, या COVID-19 से ग्रस्त किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास घर पर सुरक्षित रूप से अलग रहने के संसाधन हों। ऐसा करने के लिए, हम आपके अड़ोस-पड़ोस में विद्यमान समुदाय आधारित संगठनों के संसाधन नेविगेटरों के साथ कार्य करते हैं। वे आपके अड़ोस-पड़ोस के संसाधनों से आपको जोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं।

संसाधनों में निम्न शामिल हैं:

- + खाद्यपदार्थ की डिलिवरी
- + आपके नियोक्ता से सवेतन अवकाश
- + दवाई
- + स्वास्थ्य बीमा
- + उपयोगिताएँ (बिजली, पानी, गैस)
- + औपचारिक क्वारंटाइन ऑर्डर प्राप्त करने में मदद
- + प्राथमिक देखभाल प्रदाता
- + मानसिक स्वास्थ्य सहायता
- + घरेलू हिंसा के संबंध में सहायता
- + सामाजिक सेवाएँ
- + घर और आवासहीनता संसाधन
- + पालतू पशुओं की देखभाल
- + 10-14 दिनों तक क्वारंटाइन/ अलग होने हेतु तीन लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण युक्त Take Care पैकेज।
- + एवं और भी बहुत कुछ!

संसाधन नेविगेटर से संपर्क करने के लिए **1-212-COVID19 (1-212-268-4319)** पर कॉल करें, सुरक्षित रूप से अलग होने में मदद के लिए 5 दबाएँ, और अन्य संसाधनों के लिए वॉइसमेल छोड़ने के लिए 5 दबाएँ। कोई संसाधन नेविगेटर आपको वापिस कॉल करेगा। अगर आप Test and Trace प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो आप अपने **मामले के जांचकर्ता या मॉनिटर** को कभी भी किसी संसाधन नेविगेटर से बात करने के लिए कह सकते हैं।

किसी संसाधन नेविगेटर से बात करने से आपके स्थाई निवास (या "ग्रीन कार्ड") के लिए आवेदन करने की क्षमता तबदील नहीं होगी। अपनी आप्रवासन स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होने पर, ActionNYC हॉटलाइन को सोमवार से शुक्रवार 9 a.m. से 6 p.m. के बीच 1-800-354-0365 पर कॉल करें और "public charge" (पब्लिक चार्ज) कहें।

भागीदार संगठनों में निम्नलिखित शामिल हैं: Bronxworks, Consortium for Worker Education (CWE), Bed-Stuy Restoration, Northern Manhattan Improvement Corporation (NMIC), Make the Road NY, SoBro, Urban Upbound, Riseboro, JCC of Staten Island, CUNY, और Chinese-American Planning Council (CPC), Mekong NYC और Korean Community Services के साथ भागीदारी में।

कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग द्वारा NYC Test & Trace Corps को जो जानकारी मिलती है, वह न्यूयॉर्क शहर की स्वास्थ्य संहिता के तहत गोपनीय और संरक्षित रहती है। दल के डेटाबेस को किसी भी कानून प्रवर्तन डेटाबेस से जोड़ा नहीं जाएगा। NYC Test & Trace Corps हमें प्राप्त किसी भी जानकारी को सुरक्षित ढंग से संग्रहित करेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के सीमित उद्देश्य के लिए ही केवल प्राधिकृत स्टाफ इसका इस्तेमाल करेगा।

अधिक जानकारी के लिए
testandtrace.nyc पर जाएँ।

NYC
HEALTH+
HOSPITALS

Test & Trace
Corps

COVID-19 से लड़ने में आप क्या कर सकते हैं

परीक्षण




अपनी स्थिति जानें। अपने लिए बिना किसी शुल्क के COVID-19 टेस्ट प्राप्त करें।

ट्रेस करना



अपने समुदाय में COVID-19 का प्रसार रोकने में मदद करने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट ट्रेसर्स के कॉल का उत्तर दें।

देखभाल करना



दूसरों की रक्षा के लिए सुरक्षित रूप से अलग रहें और किसी होटल या घर में अपनी देखभाल करें।

NYC Test & Trace Corps आपकी व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें प्राप्त सभी जानकारी न्यूयॉर्क शहर की स्वास्थ्य संहिता के अंतर्गत गोपनीय एवं संरक्षित है। Test & Trace Corps किसी की भी आपवासन स्थिति के बारे में नहीं पूछेगा।

NYC
HEALTH+
HOSPITALS

Test & Trace
Corps